

7. Discuss the meaning and kinds of share as given under the Companies Act, 2013.

कम्पनी अधिनियम 2013 में वर्णित अंश एवं उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए।

8. Write critically notes on any **two** of the following :

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ लिखिये :

- (a) Meeting of Companies

कम्पनियों की बैठक

- (b) Statutory Grounds for lifting the Corporate veil.

पर्दा उठाने के सांविधिक आधार

- (c) Indoor Management

आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त।

L/Sem II/114

**LL.M. (General) (Semester II)
Examination, 2014-15**

Law

(Group H : Business Administration)

Paper : LLMH-451

Business Organisation

Time : Three Hours

Full Marks : 70

(Write your Roll No. at the top immediately on the receipt of this question paper)

Note: Answer any **four** questions. **All** questions carry equal marks.

किन्हीं **चार** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। **सभी** प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. What do you mean by pre incorporation contract ? Whether after incorporation a company can enforce such contract ? State the position before and after passing of the Specific Relief Act, 1963.

निगमन पूर्व संविदा से आप क्या समझते हैं ? क्या निगमन के पश्चात् कम्पनी ऐसी संविदा का प्रवर्तन करा सकती है ? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 पारित होने के पूर्व एवं पश्चात् की स्थिति का वर्णन कीजिए।

P.T.O.

2. 'Company has the nationality, domicile and residence but not the citizenship'. Explain. Whether a company can enjoy the fundamental rights provided by the constitution of India ? Discuss it with the help of decided cases.

‘कम्पनी की राष्ट्रियता, अधिवास और निवास होती है परन्तु नागरिकता नहीं’। व्याख्या कीजिए। क्या कम्पनी भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उपभोग कर सकती है ? निर्णित वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।

3. What is the golden rule to be observed while framing the prospecteies ? Discuss in short the remedies for misrepresentation in a prospectes.

विवरण पत्रिका विरचित करते समय किस स्वर्णिम नियम का ध्यान रखना चाहिए ? विवरण पत्रिका में मिथ्याविवरण के लिए उपचारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

4. 'One Person Company is nothing but sole proprietorship infact'. Critically examine the above statement.

‘एकल कम्पनी कुछ और नहीं अपितु एक व्यापार ही है’ उपरोक्त कथन की आलोचनात्मक व्याख्या करें।

5. A company consisting of 20 shareholders was registered as 'KAWA and Company'. Each shareholder contributed a amount of Rs 10,00,000 towards capital of the company. The company suffered a loss of Rs. 5 crore. The State Bank of Kanpur which gave a loan of Rs. 2 crores wants to proceed against the personal property of one shareholder for realising the Rs. 2 crores. Can it do so ? Discuss.

एक कम्पनी 20 अंशधारियों के साथ ‘कावा एण्ड कम्पनी’ के नाम से पंजीकृत हुई। प्रत्येक अंशधारी ने दस लाख रुपये कम्पनी की पूंजी में अभिदान दिया। कम्पनी को पाँच करोड़ रुपये का घाटा हुआ। स्टेट बैंक आफ कानपुर जिसने दो करोड़ का उधार दिया था, उसे वापस लेने के लिए एक अंशधारी के व्यक्तिगत सम्पत्ति के विरुद्ध वाद संस्थित करना चाहता है। क्या वह कर सकता है ? विवेचना कीजिए।

6. 'Doctrine of ultravires is an illusionary protection for the shareholders and a pitfall for the third parties dealing with the company ?' In the light of the above statement critically examine the Doctrine of ultravires.

‘अधिकारातीत का सिद्धान्त अंशधारियों हेतु एक भ्रामक रक्षोपाय है, और कम्पनी के साथ संम्व्यवहार करने वाले’ तृतीय पक्षाकार हेतु एक गुप्त खतरा है’ उपरोक्त कथन के आलोक में अधिकारातीत के सिद्धान्त का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।